

## हकेंवि के साथ मिलकर काम करेगा हरसैक : प्रो. टंकेश्वर कुमार

शिक्षण, अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए **समझौता ज्ञापन** पर हुए हस्ताक्षर

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़: हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), हिसार जियो-इंफोमैटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब मिलकर शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में करेंगे। दोनों ही संस्थानों ने इस संबंध में आपसी साझेदारी हेतु शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, प्रो. सारिका शर्मा ने और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) की ओर से निदेशक डा. वीएस आर्य ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस आपसी साझेदारी का उद्देश्य जियो-इंफोमैटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर, एक मंच पर आकर शिक्षण, अनुसंधान व



हकेंवि व हरसैक के बीच हुए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व डा. वीएस आर्य ● सी हकेंवि

प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करना है। प्रो.टंकेश्वर कुमार ने कहा कि अवश्य ही इस प्रयास के माध्यम से दोनों संगठन मिलकर इस क्षेत्र में नए बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रयास के माध्यम से, भू-सूचना विज्ञान, फोल्ड ट्रेनिंग, विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट और प्लेसमेंट, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और संकाय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के अनुसार बेहतर पाठ्यक्रम डिजाइन का कार्य

किया जाएगा। हरसैक के निदेशक डा. वीएस आर्य ने इस अवसर पर कहा कि इस आपसी करार के माध्यम से विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों में रिमोट सेंसिंग और जीआइएस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और दक्षता के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के उप निदेशक व भूगोल विभाग में सहायक आचार्य डा. जितेंद्र कुमार ने बताया कि जियो-इंफोमैटिक टेक्नोलॉजी आज हमारी दैनिक

गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है और उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों व तकनीकों में इस का उपयोग हो रहा है। इस तकनीक का शहरी नियोजन, मौसम पूर्वानुमान, यातायात नेविगेशन, रूट मैपिंग से लेकर आनलाइन डिलीवरी ऐप्स तक हर गतिविधि में उपयोग हो रहा है। ऐसे में दोनों संगठन संयुक्त रूप से संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को इस तकनीक की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कुलसचिव, प्रो. सारिका शर्मा, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के डीन प्रो. विनोद कुमार, निदेशक प्रो. विकास गर्ग, डा. अनूप कुमार और डा. रितेश सहित डा. मनीष कुमार व सहायक आचार्य डा. खेराज भी उपस्थित रहे।

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

News Paper: Panjab Kesari

Date: 15-01-2022

# जियो-इन्फॉर्मेटिक टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में हकेंवि संग मिलकर काम करेगा हरसैक



हकेंवि व हरसैक के बीच हुए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार व डा. वी.एस. आर्य।

महेंद्रगढ़, 14 जनवरी (परमजीत, मोहन): हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), हिसार जियो-इन्फॉर्मेटिक टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब मिलकर शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में करेंगे। दोनों ही संस्थानों ने इस संबंध में आपसी साझेदारी हेतु शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए। विश्वविद्यालय की ओर से

कुलसचिव, प्रो. सारिका शर्मा ने और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) की ओर से निदेशक डा. वी.एस. आर्य ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस आपसी साझेदारी का उद्देश्य जियो-इन्फॉर्मेटिक टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर, एक मंच पर आकर शिक्षण, अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करना है। प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि

अवश्य ही इस प्रयास के माध्यम से दोनों संगठन मिलकर इस क्षेत्र में नए बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रयास के माध्यम से भू-सूचना विज्ञान, फील्ड ट्रेनिंग, विद्यार्थियों के लिए इंटरशिप और प्लेसमेंट, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और संकाय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के अनुसार बेहतर पाठ्यक्रम डिजाइन का कार्य किया जाएगा। हरसैक के निदेशक डा. वी.एस. आर्य ने इस अवसर पर कहा कि इस आपसी करार के माध्यम

## जियो-इन्फॉर्मेटिक टैक्नोलॉजी दैनिक गतिविधियों में जिभा रही महत्वपूर्ण भूमिका: डा. जितेंद्र

विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के उप निदेशक व भूगोल विभाग में सहायक आचार्य डा. जितेंद्र कुमार ने बताया कि जियो-इन्फॉर्मेटिक टैक्नोलॉजी आज हमारी दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है और उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों व तकनीकों में इसका उपयोग हो रहा है। इस तकनीक का शहरी नियोजन, मौसम पूर्वानुमान, यातायात नेविगेशन, रूट मैपिंग से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी एप्स तक हर गतिविधि में उपयोग हो रहा है।

ऐसे में दोनों संगठन संयुक्त रूप से संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को इस तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कुलसचिव, प्रो. सारिका शर्मा, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के डीन प्रो. विनोद कुमार, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. विकास गर्ग, हरसैक से डा. अनूप कुमार और डा. रितेश सहित भूगोल विभाग के शिक्षक प्रभारी डा. मनीष कुमार व सहायक अचार्य डा. खैराज भी उपस्थित रहे।

से विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और दक्षता रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस. के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी।

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

News Paper: Dainik Bhaskar

Date: 15-01-2022

# शिक्षण, अनुसंधान व प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर जियो-इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हकेंवि संग मिलकर काम करेगा हरसैक

भास्कर न्यूज़ | महेंद्रगढ़

हकेवि, महेंद्रगढ़ और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), हिसार जियो-इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब मिलकर शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में करेंगे। दोनों ही संस्थानों ने इस संबंध में आपसी साझेदारी हेतु शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, प्रो. सारिका शर्मा ने और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) की ओर से निदेशक डॉ. वी.एस.आर्य ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस आपसी साझेदारी का उद्देश्य जियो-इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर, एक मंच पर आकर शिक्षण, अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करना है।



हकेवि व हरसैक के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर कुलपति प्रो.टंकेश्वर कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर करती कुलसचिव प्रो.सारिका शर्मा।

प्रो.टंकेश्वर कुमार ने कहा कि अवश्य ही इस प्रयास के माध्यम से दोनों संगठन मिलकर इस क्षेत्र में नए बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

इस प्रयास के माध्यम से, भू-सूचना विज्ञान, फील्ड ट्रेनिंग, विद्यार्थियों के लिए इंटरशिप और प्लेसमेंट, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और संकाय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के अनुसार बेहतर पाठ्यक्रम डिजाइन का कार्य किया जाएगा। हरसैक के

निदेशक डॉ. वी.एस.आर्य ने इस अवसर पर कहा कि इस आपसी करार के माध्यम से विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और दक्षता के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के उप निदेशक व भूगोल विभाग में सहायक आचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि जियो-इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी आज हमारी दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर

आ रही है और उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों व तकनीकों में इस का उपयोग हो रहा है।

इस तकनीक का शहरी नियोजन, मौसम पूर्वानुमान, यातायात नेविगेशन, रूट मैपिंग से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी एप्स तक हर गतिविधि में उपयोग हो रहा है। ऐसे में दोनों संगठन संयुक्त रूप से संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को इस तकनीक की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कुलसचिव, प्रो. सारिका शर्मा, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के डीन प्रो.विनोद कुमार, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. विकास गर्ग, हरसैक से डॉ.अनूप कुमार और डॉ. रितेश सहित भूगोल विभाग के शिक्षक प्रभारी डॉ. मनीष कुमार व सहायक आचार्य डॉ. खंराज भी उपस्थित रहे।

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

News Paper: Amar Ujala

Date: 15-01-2022

## शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर जियो-इन्फोमेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हकेवि संग मिलकर काम करेगा हरसेक

संवाद न्यूज एजेंसी

महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसेक) हिसार जियो-इन्फोमेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब मिलकर शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में काम करेंगे।

दोनों ही संस्थानों ने इस संबंध में आपसी साझेदारी के लिए शुक्रवार को एक समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव प्रो. सारिका शर्मा और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसेक) की ओर से निदेशक डॉ. वीएस आर्य ने हस्ताक्षर किए।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस आपसी साझेदारी का उद्देश्य जियो-इन्फोमेटिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर, एक मंच पर आकर शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करना है।

प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि अवश्य ही इस प्रयास के माध्यम से दोनों संगठन



एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद एक-दूसरे को दस्तावेज की कॉपी सौंपते हुए। संवाद

मिलकर इस क्षेत्र में नए बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

इस प्रयास के माध्यम से भू सूचना विज्ञान, फील्ड ट्रेनिंग, विद्यार्थियों के लिए इंटरशिप और प्लेसमेंट, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और संकाय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के अनुसार बेहतर पाठ्यक्रम डिजाइन का कार्य किया जाएगा। हरसेक के निदेशक डॉ. वीएस आर्य ने कहा कि इस आपसी करार के माध्यम से विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और दक्षता के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी।

विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के उप निदेशक, भूगोल विभाग में

सहायक आचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि जियो-इन्फोमेटिक टेक्नोलॉजी आज हमारी दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है। उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों, तकनीकों में इस का उपयोग हो रहा है।

इस तकनीक का शहरी नियोजन, मौसम पूर्वानुमान, यातायात नेविगेशन, रूट मैपिंग से लेकर ऑनलाइन डिलिवरी एप तक हर गतिविधि में उपयोग हो रहा है। ऐसे में दोनों संगठन संयुक्त रूप से संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को इस तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।